

PUBLIC NOTICE

Before the Central Government Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu
In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009
In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND
In the matter of LEVNET VENTURE PARTNERS LLP having its registered office at 1302, Central Park South, Eicot Avenue, Sholinganallur, Chennai - 600119.
Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Tamil Nadu" to the state of "Haryana".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.
For and on behalf of LEVNET VENTURE PARTNERS LLP Sd/- Vimal Prakash Srivastava Designated Partner Address: G03-4th Floor, Sushant Lok 3, Sector 57, Near Boom Plaza, Gurgaon, 122011 Date: 13th November 2021, Place: Gurgaon

इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: वन वर्ल्ड सेंटर, 20वीं मंजिल, टॉवर 2ए, नुवेर मिल्स कंपाउंड, मेगापॉलिस बिल्डिंग, मुंबई - 400 013
कॉर्पोरेट पता संख्या: U65990MH2016PTC271587
ई-मेल: +91 22 43157000; फेक्स: +91 22 43157010
ई-मेल: contact@indostarcapital.com; वेबसाइट: www.indostarhfc.com

सूचना
मुख्य निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 93 के अनुसार एलटी द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी का शाखा कार्यालय, जो चौबीस मंजिल, एम-5 ए, मिडिल स्कूल, कानूर प्लेस, नई दिल्ली - 110001 पर स्थित है, को 13 फरवरी, 2022 के व्यवसायिक सप्ताह की समाप्ति के बाद से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका पर्याप्त इस्तेमाल निकाटन शाखा कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा रहा है, जो एफएच 38, 1ली मंजिल, पर्वत ओपेन, नेताजी सुभाष प्लेस, पीएमएन, दिल्ली - 110034 पर स्थित है।
यदि इस संबंध में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप उपरोक्त निकाटन शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हमें contact@indostarcapital.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।
इस सूचना को कंपनी की वेबसाइट (www.indostarhfc.com) पर भी देखा जा सकता है।
इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
अधोस्तराधिकारिता / नियंत्रण शाखा
कंपनी सचिव
दिनांक: 12-11-2021

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, एक्सिस बैंक के ऊपर, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी.-201010

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जाती है।
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत ऋण पावती सहित / स्वीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशि 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियों जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है: उनका अधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई-नोलेमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कर्जदार / गारंटर के नाम / एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्वॉर्ड आस्तियों का विवरण
श्री मनोज कुमार सिंह और मंजरी सिंह, दोनों मकान नं. आरके-23-ई-14, गली नं. 15 इंद्रा पार्क चारम कॉलोनी दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110045	मांग सूचना की तारीख 20-10-2021 बकाया राशि ₹ 23,06,773/- दिनांक 30.09.2021 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	मकान नं. RZ-23E/4, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार, क्षेत्रफल 102 वर्ग मी. अर्थात् 85 वर्ग मी., खसरा नं. 879/638 का हिस्सा, इन्द्रा पार्क, गली नं. 15, गांधी नगर, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित, चौकी: पूरब में - अन्य की संपत्ति, पश्चिम में - 13 फीट गली, उत्तर में - अन्य की संपत्ति, दक्षिण में - अन्य की संपत्ति

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोलिखित से मूल नोटिस प्राप्त करें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करके ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।
दिनांक: 13.11.2021, स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HEXA TRADEX LIMITED
CIN - L51101UP2010PLC042382
Regd. Office : A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended		Half year ended		Year ended	Quarter ended		Half year ended		Year ended		
		30.09.2021 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.21 Audited	30.09.2021 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.21 Audited
1.	Total income from operations	0.89	-	0.27	0.89	0.27	0.92	8.54	14.58	9.90	23.12	19.53	38.54
2.	Net profit/(loss) before tax	(54.88)	(58.05)	(55.83)	(112.93)	(95.67)	(186.02)	(1,721.15)	(16.20)	(3.41)	(1,737.36)	314.67	999.85
3.	Net profit/(loss) after tax	(40.73)	(43.41)	(41.78)	(84.14)	(71.59)	(137.64)	(1,348.32)	39.73	9.45	(1,308.60)	332.59	951.88
4.	Total comprehensive income [Comprising profit/(loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	57,440.74	30,099.61	28,121.74	87,540.35	28,099.02	90,294.94	61,840.01	36,477.68	29,131.61	98,317.67	31,776.58	97,716.39
5.	Equity share capital	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91
6.	Other equity	-	-	202,632.84	145,192.09	115,092.48	-	-	-	-	218,757.00	54,499.52	120,439.33
7.	Earnings per share (of ₹ 2/- each)	(0.07)*	(0.08)*	(0.08)*	(0.15)*	(0.13)*	(0.25)	(2.44)*	0.07*	0.02*	(2.37)*	0.60*	1.72
	(1) Basic	(0.07)*	(0.08)*	(0.08)*	(0.15)*	(0.13)*	(0.25)	(2.44)*	0.07*	0.02*	(2.37)*	0.60*	1.72
	(2) Diluted	(0.07)*	(0.08)*	(0.08)*	(0.15)*	(0.13)*	(0.25)	(2.44)*	0.07*	0.02*	(2.37)*	0.60*	1.72

*Not Annualised Note:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the quarterly/half yearly/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com.

On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited
Sd/- Veni Verma Managing Director DIN: 07506927

Place: New Delhi
Date: November 12, 2021

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक)
प्रधान कार्यालय: द केम्पवे, भुवनेश्वर प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लर, कोतमंगला इनर रिंग रोड, इन्डोला विजयन पार्क के बगल में, चल्लापट्टा, बैंगलोर-560071

रिजर्वेशन का नालामा का लक्ष्य सावधानतापूर्वक सूचना

नीचे वर्णित ऋणधारकों को ऋण स्वीकार दिलाये जाने के बावजूद निश्चित समय में ऋणों का भुगतान करने तथा रिजर्वेशन का लक्ष्य सावधानतापूर्वक सूचना गृहणीयों को 15.11.2021 को 10.30 पूर्वा. में हमारी शाखा परिसरों में सावजनिक/ऑनलाइन/निजी नोलेमी में विज्ञापित की जायेगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह है कि शाखा में सम्पर्क करें। बैंक को चाहे जो भी हो, उसका कोई भी कारण बनाए बिना किसी भी शर्तों का स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। कृपया ध्यान रहे कि यदि नोलेमी उसी दिन पूरी नहीं होती है तो वह उसी नियमों एवं शर्तों पर अगले दिवस को आयोजित होगी। यदि ग्राहक को सूचना हो चुकी है, तो नोलेमी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामिनी/विविध उतराधिकारों पर लागू होंगी। एल्टरनाटिव ऋणधारकों को अधिसूचित किया जाता है कि नोलेमी को लिखित रूप से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्च का भुगतान करें। जिसमें विफल होने पर बंधक रिजर्वेशन का लक्ष्य सावधानतापूर्वक सूचना शेष देयता यदि कोई हो, ब्याज तथा सहायक खर्च साथ ब्याज का जोड़ होगा। किसी भी प्रकार की पुष्टता के तथा नियमों एवं शर्तों के लिखित शाखा में सम्पर्क करें। शाखा के पते के विवरणों के लिये www.janabank.com देखें।

क्र.सं.	ऋण धारक का नाम	ऋणधार्क/सह-ऋणधार्क का नाम	शिली नं. एवं रिजर्वेशन का रुक बन
1	30808740000337	निशा	14.9
2	31248740000062	बंकरल निशा	26.93
3	30218740000577	अनता	25.37

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., पता तल, सम्मति नं. बी-109, ज्योति कालोनी, दुर्गापुरी चौक के निकट शाहदरा, दिल्ली-110032, भारत

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., भुवनेश्वर, सम्मति नं. 2152, बचाना रोड, नरैला मंडी, दिल्ली-110040, भारत

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., नं. 8, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पीएमडी चौक के निकट, मारत जे.रूम के सामने, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, भारत

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 13.11.2021
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

QUASAR INDIA LIMITED
CIN: L67190DL1979PLC009555
Regd. Off.: 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, Delhi-110085
Mob:+91 9625304043 | Email: quasarindia123@gmail.com
Website: www.quasarindia.in

Extracts of the Standalone Quarterly Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2021

Sl No.	Particulars	Rs. in Lakh		
		Quarter Ended 30/09/2021 (Unaudited)	Half Year Ended 30/09/2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30/09/2020 (Unaudited)
1.	Total income from operations	11.42	21.75	16.68
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.62	12.73	12.30
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.62	12.73	12.30
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.89	9.41	9.10
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	4.89	9.41	9.10
6.	Equity Share Capital	535.25	535.25	535.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	16.47	16.47	17.76
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.09	0.18	0.17
	2. Diluted :	0.09	0.18	0.17

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Website of the Company i.e (www.quasarindia.in) & website of the stock Exchange(s) (www.bse-india.com)
2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 12th November, 2021. 3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Harish Kumar (Director)
DIN: 02591868

Date: 12.11.2021
Place: New Delhi

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

droom
DROOM TECHNOLOGY LIMITED

Droom Technology Limited ("Our Company") was incorporated as Droom Technology Private Limited on September 9, 2014, at New Delhi as a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Assistant Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana, at New Delhi. Our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on August 16, 2021 and the name of our Company was changed to Droom Technology Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to a public limited company was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana, at New Delhi ("ROC") on September 14, 2021. For details of change in name and Registered and Corporate Office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 157 of the Draft Red Herring Prospectus dated November 11, 2021 ("DRHP").
Registered Office: 90/31B, First Floor, Malviya Nagar, New Delhi - 110017, Delhi; Telephone: +91 11 4040 4501; Corporate Office: 77A, Building No.1, Ifco Road, Sector-18, Gurugram - 122 015, Haryana; Telephone: +91 124 4610 300
Website: www.droom.in; Contact Person: Anil Dwivedi, Company Secretary and Chief Compliance Officer; E-mail: companysecretary@droom.in; Corporate Identity Number: U72300DL2014PLC271386

OUR PROMOTERS: SANDEEP AGGARWAL AND DROOM PTE. LTD.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") OF DROOM TECHNOLOGY LIMITED ("COMPANY") OR "ISSUER" FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 20,000 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES ("OFFERED SHARES") BY DROOM PTE. LTD. ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING UP TO ₹ 10,000 MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WOULD CONSTITUTE [•] OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARES, INCLUDING BY WAY OF A PRIVATE PLACEMENT OR ANY OTHER METHODS AS MAY BE PERMITTED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW, FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 4,000 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO THE FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). ANY AMOUNT RAISED PURSUANT TO SUCH A PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE AMOUNT OF THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR").

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 1 EACH AND THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS") AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. This Offer is being made through the Book Building Process and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion") shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and provide details of their respective bank accounts (including UPI ID in case of RIBs), in which the Bid Amount will be blocked by the SCBS or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 318 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") shall be made available to the public for comments, if any, from the date of filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, and the websites of the respective BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfn.com, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited at https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback and Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html. We invite the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made therein. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Chief Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by the Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Chief Compliance Officer of our Company on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 22 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the ROC and must not be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. There may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 157 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited.

For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed for by them see "Capital Structure" on page 70 of the DRHP.

शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(पूर्व में ऑडिओ होस्टिंग ऐंड मीडिया लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन: L22100DL1990PLC039464
पंजी. कार्यालय: 37वां द्वितीय तल, एन सी रोड, मोहिया जवन, पहाड़गढ़, दिल्ली-110055
ई-मेल: sharplinebroadcastslimited@gmail.com, वेबसाइट: www.sharplinebroadcast.in

30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्ध-वर्ष हेतु अ-संवर्णित परिणामों का विवरण

दिनांक	वर्षांत तिमाही 30.09.2021 (अ-संवर्णित)	वर्षांत अर्ध-वर्ष 30.09.2021 (अ-संवर्णित)	पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तिमाही 30.09.2020 (अ-संवर्णित)
(रु. में दिखाने का संकेत है)			
1. प्रचालना से कुल आय	187.52	284.18	88.46
2. अर्ध-वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	5.78	(50.58)	5.19
3. कर पूर्व अर्ध-वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	5.78	(50.58)	5.19
4. कर उपरान्त अर्ध-वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	4.32	(52.04)	5.19
5. अर्ध-वर्ष हेतु कुल व्यापक आय अर्ध-वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त से समाहित)	4.32	(52.04)	5.19
6. सरकारी ऋण पूंजी	1,150.00	1,150.00	1,150.00
7. अन्य प्रति अंश (₹ 10/- प्रत्येक का) (निर्देश जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)-			
1. मूल	0.04	-0.45	0.05
2. तनुकृत	0.04	-0.45	0.05

टिप्पणी:
1. उपरोक्त परिणामों को हे जो सेबी (सूचीकरण एवं अन्वेषण अधिनियम) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज त्रैमासिक परिणामों के विस्तृत प्रयास का एक हिस्सा है। त्रैमासिक परिणामों का पूर्व प्रकाश स्टॉक एक्सचेंजों तथा सूचीकृत कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. शेयरों की कीमतों में परिवर्तनों के कारण निवल लाभ/(हानि), कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मद पर परिवर्तनों प्रभाव का प्रकटीकरण परिणामों की तुलना हेतु अद्यतन से किया जाएगा।
3. आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों को अर्ध-वर्ष-एवं तिमाही-एवं तिमाही-वली, जो कोई भी लागू है, के अनुसार के अंतर्गत, लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित किया गया है।

कुछ शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
हस्ता./-
नाम: संजीव कुमार शर्मा
पदनाम: वित्तीय निदेशक
सीआईएन: 02840583

दिनांक: 12.11.2021

स्वदेशी पॉलीटेक लिमिटेड
ए-1, सेक्टर-17, कबी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-201001 (यूपी)
सीआईएन: L25209UP1970PL003320, फोन: 0120 2701472
ईमेल: info@splindia.co.in, वेबसाइट: www.splindia.co.in

30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही / अर्ध-वर्ष के अनंकेषित वित्तीय परिणामों का सारा

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2021 अनंकेषित	समाप्त अर्ध-वर्ष 30.09.2021 अनंकेषित	समाप्त तिमाही 30.09.2020 अनंकेषित
1	परिचालना से कुल आय	3.52	19.64	3.82
2	शुद्ध लाभ / (हानि) अर्ध-वर्ष हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	-42.03	-65.64	-45.24
3	शुद्ध लाभ / (हानि) अर्ध-वर्ष हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से परचात)	-42.03	-65.64	-45.24
4	शुद्ध लाभ / (हानि) अर्ध-वर्ष हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से परचात)	-298.68	-315.64	-32.20
5	अर्ध-वर्ष हेतु कुल योग गहन आय (अर्ध-वर्ष हेतु लाभ/ हानि शामिल करके तथा/ अथवा असाधारण सामग्री परचात तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर परचात)	-298.68	-315.64	-32.20
6	इंक्विटी शेयर पूंजी	390.00	390.00	390.00
7	निज (ईंक्विटेशन निज को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिखाया गया है	0.00	0.00	0.00
8	प्रति इंक्विटी शेयर आय (रुपय 1/- प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए) -			
	-मूलभूत	-0.77	-0.81	-0.08
	-द्वय			